



MNEMONIC CONVENT SCHOOL

Affiliated to CBSE, New Delhi

SYLLABUS OF HALF- YEARLY EXAMINATION (2025- 2026)

Class- X

S.NO.	SUBJECT	SYLLABUS
1.	HINDI	<p><u>हिंदी साहित्य</u></p> <p><u>क्षितिज (गद्य खंड)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• नेताजी का चश्मा• बालगोबिन भगत• लखनवी अंदाज़ <p><u>पद्य</u></p> <ul style="list-style-type: none">• सूर के पद• आत्मकथ्य• उत्साह/अट नहीं रही है• दंतुरित मुसकान <p><u>कृतिका</u></p> <ul style="list-style-type: none">• माता का आँचल• साना-साना हाथ जोड़ि <p><u>हिंदी व्याकरण</u></p> <ul style="list-style-type: none">• वाच्य भेद• अर्थअलंकार तथा भेद• रचना के आधार पर वाक्य भेद• पद परिचय• अपठित गद्यांश/पद्यांश <p><u>रचनात्मक लेखन</u></p> <ul style="list-style-type: none">• अनुच्छेद लेखन• पत्र (औपचारिक/अनौपचारिक)• स्ववृत्त• ई-मेल लेखन• विज्ञापन• संदेश
2.	MATHS	<ul style="list-style-type: none">• Real Numbers• Polynomials• Linear Equations in two variable• Quadratic Equations• Arithmetic progressions• Triangles• Coordinate Geometry• Introduction to Trigonometry <p>PRACTICAL</p> <ul style="list-style-type: none">• To draw graph of a quadratic polynomial and observe. <p>1. The shape of the curve, when coefficient of x^2 is</p>

		<p>positive.</p> <p>2. The shape of the curve, when coefficient of x^2 is negative.</p> <p>3. Its number of zeros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To identify arithmetic progressions in some given lists of numbers. • To find the sum of first n natural numbers. • To find the sum of first n odd natural numbers. <p>Prepare these activities for your practical examination</p>
3.	ENGLISH	<p><u>LITERATURE (FIRST FLIGHT)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A letter to God • Nelson Mandela: Long walk to freedom • Two stories about flying • From the diary of Anne Frank • Glimpses of India • Dust of Snow • Fire and ice • A tiger in the zoo • How to tell wild animals • The ball poem • Amanda <p><u>FOOTPRINTS WITHOUT FEET</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A triumph of surgery • The thief's story • The midnight visitor • A question of trust • Footprints without feet <p><u>GRAMMAR & WRITING SKILLS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenses • Determiners • Letters • Analytical Paragraph <p><u>READING SKILLS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unseen Passages
4.	SCIENCE	<p><u>PHYSICS:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CH- LIGHT:- Reflection and Refraction • CH- Human Eye and Colourful World <p><u>CHEMISTRY:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CH Chemical Reaction and Equations • CH- Acid, Bases and Salts <p><u>BIOLOGY:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CH- Life Process • CH- Control And Coordination

		PRACTICAL <ul style="list-style-type: none"> • Chemistry - 1.Classification of Acid and base (Viva +Mcqs) • Physics:-1.concave mirror 2.convex lens 3.Glass slab (Viva+Mcqs) • Biology:- 1.Observation of stomata in the upper and lower surface of leaf. (Viva+Mcqs)
5.	SOCIAL SCIENCE	<u>History</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ch-1(Rise of nationalism in Europe) • Ch-2(Nationalism in India) • Ch-3((Making of global world) <u>Geography</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ch-1(Resources & development) • Ch-2(Forest & Wildlife) • Ch-3(Water resources) <u>Civics</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ch-1(Power sharing) • Ch-2(Federalism) • Ch-3(Gender, Religion and Caste) <u>Economic</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ch-1(Development) • Ch-2(Sectors of the Indian Economy) <u>Map Activity</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nationalism in India • Water resources
6.	COMPUTER (IT)	<ul style="list-style-type: none"> • Communication skills • Self management skills • ICT skills • Digital documentation • Electronic Spreadsheet <p>Note: Do all the book and notebook work of above given chapters.</p>